



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2011 (कार्तिक 21, 1933)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2011 (KARTIKA 21, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. ए-22017/1/2009-पीएमई (वाल्सूम-2)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित निजी सचिवों को प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टॉफ में दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	नाम	कैडर
1.	श्री मणिकंदन नायर	गृह मंत्रालय
2.	श्री वी. एस. भण्डारी	गृह मंत्रालय

2. प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टॉफ में इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. आरएस./43(ix)/2005/94-कार्मिक--राज्य सभा सचिवालय में निदेशक (सुरक्षा) के रूप में कार्यकाल समाप्त होने पर, श्री संजय सिंह,

आईपीएस (एजीएमयू : 90) को 30 सितम्बर, 2011 के अपराह्न से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

डी. बी. सिंह, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 अक्टूबर 2011

सं. आरएस./36(i)/2007/105-कार्मिक--राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा के महासचिव के रूप में डॉ. विवेक कुमार अग्निहोत्री के कार्यकाल को वर्तमान निबंधनों और शर्तों पर 31 जुलाई, 2012 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

डी. बी. सिंह, अपर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560231, दिनांक 27 अक्टूबर 2011

सं. 6/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.सी. को

वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.डी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमती/कु.

1. तन्ना जैमिन एच.
2. अशोक कुमार
3. पंकज एस. भावसार
4. डिम्पल गर्ग
5. अजय कुमार प्रशार
6. श्रीजित के. एम.
7. राजेश सिखाकोल्लि
8. सोनिय निभानी
9. जे. एम. हल्पति
10. नेहा मेहरा
11. श्वेता अग्रवाल
12. आदर्श जैन
13. अमित रावत
14. विभा कुमारी
15. हितेश मोदी
16. कल्पेष् कुमार बोर्सादिया
17. डॉ. अरविंद सहाय

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.ई. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.एफ. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमती/कु.

1. जल्पा बी. मोदी
2. डॉ. सरोज मैटी
3. डॉ. वी सतिय मूर्ति
4. त्रप्ती कटियार
5. जयेश तक्कर
6. जिग्नेश एच. शॉ
7. ए. बी. शुक्ला

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.डी. को

वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.ई. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमती/कु.

1. मनीश कुमार
2. संजय कुमार कसोडनिया
3. एम. पी. देत्रोज
4. हनुमान प्रसाद येन्दलूरी
5. राजेन्द्र सी. बोलकोटगी
6. डॉ. प्रवीण कुमार गुप्त
7. जिग्नेश आर. क्षत्रिय
8. रितेश अग्रवाल
9. विमल कुमारी
10. वी. एन. परेख

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.एफ. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.जी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमती/कु.

1. प्रदीप कुमार
2. डॉ. ए. सुब्बा राव
3. डॉ. रश्मी शर्मा
4. परुल पटेल
5. एच. पी. भट्ट
6. डॉ. ए. एस. आर्य
7. देवल सी. मेहता
8. आर. जे. दोशी

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2011

सं. ए-12025/14/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर के उप प्रबंधक (प्लांट), डॉ. गिरिजा प्रसाद पांडे को 7,600/- रु. ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3, 15,600--39,100 रु. में उप सलाहकार (पशुपालन) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 20.10.2011 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.09.2014 अर्थात् उनके द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करती हैं।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशासन)

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा.-IV (वि.का.) खंड-V--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के श्री पी. एस. रावत, नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को दिनांक 26.08.2011 (पूर्वाह्न) से विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.08.2011 के आदेश सं. 4/2/2011-सी.एस.-II(ए) के अनुसार उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित निजी सचिव उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, के लिए है और इससे उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

आशा सोय, अवर सचिव

-----

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा.-IV (वि.का.) खंड-V--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के श्री राकेश कुमार, नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को दिनांक 26.08.2011 (पूर्वाह्न) से विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.08.2011 के आदेश सं. 4/2/2011-सी.एस.-II(ए) के अनुसार उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि अथवा नियमित निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, के लिए है और इससे उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने और निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

आशा सोय, अवर सचिव

-----

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2011

सं. ए-12026/05/2011-प्रशा.-I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार संवर्ग का ग्रेड-1) श्री अब्दुल अजीज को संविदा आधार पर पुनर्नियोजन पर दिनांक 01.08.2011 से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, वेतन बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/-) में रु. 10,000/- ग्रेड वेतन सहित केन्द्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त सचिव स्तर पर अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

सं. I-14012/14/2011-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, 63 आर.आर. (2010) बैच के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2009 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, के सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन होने पर प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा से उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	भा.पू.से. से तकनीकी त्यागपत्र की तारीख
सर्वश्री		
1.	रवि धावन, भा.पू.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
2.	मिथिलेश मिश्रा, भा.पू.से. (बिहार : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
3.	राहुल कुमार सिन्हा, भा.पू.से. (झारखण्ड : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
4.	मन्जुनाथ भजन्नी, भा.पू.से. (कर्नाटक : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
5.	चौधरी अभिजीत विश्वनाथ, भा.पू.से. (कर्नाटक : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
6.	सुश्री दीपा एस. मुधोल, भा.पू.से. (कर्नाटक : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
7.	सुश्री रुचिका दीवाकर, भा.पू.से. (मध्य प्रदेश : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
8.	संजय मीणा, भा.पू.से. (महाराष्ट्र : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
9.	पारधी सौरभ जामसिंह, भा.पू.से. (महाराष्ट्र : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
10.	थियागराजन एस.एम., भा.पू.से. (ओड़िशा : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
11.	भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.पू.से. (ओड़िशा : 2010)	25.08.2011 (अपराह्न)
12.	कुर्मा राव एम, भा.पू.से. (असम-मेघालय : 2010)	26.08.2011 (अपराह्न)
13.	राहुल कुमार, भा.पू.से. (बिहार : 2010)	26.08.2011 (अपराह्न)
14.	लक्ष्मनन्, भा.पू.से. (कर्नाटक : 2010)	26.08.2011 (अपराह्न)
15.	विशाक जी., भा.पू.से. (तमिलनाडु : 2010)	26.08.2011 (अपराह्न)
16.	एस. अरुण प्रसाद, भा.पू.से. (पश्चिम बंगाल : 2010)	26.08.2011 (अपराह्न)
17.	जीवन बाबू के., भा.पू.से. (पश्चिम बंगाल : 2010)	26.08.2011 (अपराह्न)

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

-----

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

सं. I-11014/4/2011-आई.पी.एस.-IV--केन्द्र सरकार श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2010) का विवाह सुश्री तनवी सुन्दरीयाल बहुगुणा, आई.ए.एस. (मध्य प्रदेश : 2010) के साथ हो जाने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार की सहमति से श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, आई.पी.एस. (तमिलनाडु : 2010) का स्थानान्तरण तमिलनाडु से मध्यप्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2011

सं. 39019/05/2011-स्थापना(ख)--अपनी नियुक्ति की अवधि पूरी करने पर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 (अपराह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद त्याग दिया है।

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

सं. 100 (फा. सं. ए-38013/4/2011-प्रशा.-I)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री सोमनाथ बैनर्जी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 सितम्बर, 2011 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2011

सं. 101 (फा.सं. ए. 19013/30/2011.प्रशा.1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्रीमती किरन चौहान को दिनांक 25.08.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में राजस्व विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती किरन चौहान, सहायक निदेशक (राजभाषा) की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह नियुक्ति उन्हें वरिष्ठता नियतन करने या नियमित नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 102 (फा.सं. ए. 19012/7/2008.प्रशा.1)--इस विभाग के दिनांक 19.08.2008 की अधिसूचना सं. 62 के अनुक्रम में भारत के राष्ट्रपति, श्री के. रामकृष्णन, भारतीय राजस्व सेवा (के.उ.शु. एवं सी.शु. : 97), उप सचिव को दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए अर्थात् 31.07.2013 तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हों, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 अक्टूबर 2011

सं. 103 (फा.सं. ए. 19011/15/2010.प्रशा.1)--राजस्व विभाग, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी श्री के.एस. नेपोलियन

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30 सितम्बर, 2011 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. 27/2011 (फा.सं. ए. 38012/09/2011.प्रशा.II)--राष्ट्रपति, सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री एम.ए. दारूडवाले उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई-II की दिनांक 01.08.2011 (पूर्वाह्न) से भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक (प्रशा. II)

दिनांक 30 जुलाई 2011

सं. 23/2011 (फा.सं. ए. 38012/14/2011.प्रशा.II)--राष्ट्रपति, सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री बी. एस. गौर उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर की दिनांक 31.07.2011 (पूर्वाह्न) से भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक (प्रशा. II)

दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. 25/2011 (फा.सं. ए.-38012/25/2005.प्रशा.II)--राष्ट्रपति एफ. आर-56(ट) के अंतर्गत श्री दया शंकर, (जन्म तिथि 21.02.1952) (आईआरएस सी एण्ड सी ई 1978) की भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की दिनांक 25.09.2005 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक

दिनांक 23 अगस्त 2011

सं. 26/2011-फा. सं. ए-32012/29/2009-प्रशा.II--राष्ट्रपति, कनिष्ठ समयबद्ध वेतनमान में तत्कालीन सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, श्री एस. वाडिया (सेवा निवृत्त) को (दिवंगत हो जाने के कारण) सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (समयबद्ध वेतनमान में) के ग्रेड में, दिनांक 17.08.1982 से, अर्थात् उस तारीख से जिस दिन उनके कनिष्ठ श्री बी.बी. चिटनिस को उक्त ग्रेड में प्रोन्नत किया गया था, प्रोन्नत करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)  
स्थापनाएं

दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. 27/2011-फा. सं. ए-32012/15/2009-प्रशा. II--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अंतर्गत श्री तरुण कुमार गोविल, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), मुंबई, जोन-I मुंबई की दिनांक 25.08.2011 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक

व्यय विभाग

नई दिल्ली-110513, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

सं. ए-32013/8/2011-ग्रुप ए/1402-23--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (ग्रुप 'बी') को समय समय पर यथा संशोधित भारतीय सिविल लेखा (ग्रुप 'ए') भर्ती नियमावली, 2006 के अंतर्गत दिनांक 14.10.2011 (पूर्वाह्न) से रु. 8,000-275-13,500/- (संशोधित पूर्व) (रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित नए वेतन बैंड-3) के वेतनमान में भारतीय सिविल लेखा सेवा (ग्रुप ए) के कनिष्ठ समयमान में, परिवीक्षा पर, नियुक्ति करते हैं:--

क्र.सं.	नाम
1	2
	सर्वश्री
1.	ए.के. कलसी
2.	एम.एस. प्रताप
3.	डी.वी. उदार
4.	ए.के. सहगल
5.	सुश्री टी.आर. पदमावती
6.	एम.सी. घोंजे
7.	सुश्री राधा कडवाल
8.	डी.के. चटर्जी
9.	के. इलावरासन (अनुसूचित जाति)
10.	अभे सिंह (अनुसूचित जाति)
11.	के. डेविड राजू (अनुसूचित जाति)
12.	शंकर सरदार (अनुसूचित जाति)
13.	सुरेश कुमार (अनुसूचित जाति)
14.	नरसिंह लाल (अनुसूचित जाति)
15.	सुश्री एस गीता (जी.एस. लजारस)
16.	कमलजीत सिंह (08.06.2012 तक सीएस डब्ल्यू बी में प्रतिनियुक्ति पर)

1	2
	सर्वश्री
17.	वी.के. झा
18.	सुश्री कृष्णा ढल
19.	के.के. मित्तल
20.	ए.एस. धवन
21.	हेम चन्द (अनुसूचित जाति)
22.	हरजीत सिंह (अनुसूचित जाति)

2. परिवीक्षा की अवधि 14 अक्टूबर, 2011 से दो वर्ष के लिए होगी।

अमिताभ त्रिपाठी, उप महालेखा नियंत्रक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 अक्टूबर 2011

सं. ए-12011/4/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती द्वारा चयनित श्री मनोज कुमार साहु को दिनांक 02.08.2010 (पूर्वाह्न) से भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान (पीबी-3, 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, वरिष्ठ समयमान अधिकारी, श्री मनोज कुमार साहु को दिनांक 02.08.2010 (पूर्वाह्न) से शासकीय समापक कार्यालय, चेन्नई में उप शासकीय समापक के पद पर नियुक्त करती हैं।

आर.के. पाण्डे, अवर सचिव

दिनांक 24 अक्टूबर 2011

सं. ए-32011/8/2010-प्रशा. II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वर्ग ख अधिकारियों को उनकी प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके नाम के सामने लिखी तारीख से भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (वर्ग क) (पीबी-3, 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 5,400/- रु.) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	लागू होने की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती	
1.	अंशु टंडन	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
2.	संजय कुमार वर्मा	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
3.	एस.एन. तिवारी	25.08.2011 (पूर्वाह्न)
4.	शाम राव डी पाटील	25.08.2011 (पूर्वाह्न)
5.	राजेन्द्र कुमार	29.08.2011 (पूर्वाह्न)
6.	अपराजित बरुआ	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
7.	अजय कुमार मीणा	29.08.2011 (पूर्वाह्न)

1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती	
8.	सुधाकर टी भोए	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
9.	गोपाल सिंह	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
10.	अनिमेष बोस	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
11.	काबेरी सरकार	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
12.	एस.बी. सावंत	25.08.2011 (पूर्वाह्न)
13.	आर.के. घोलप	24.08.2011 (अपराह्न)
14.	चंदन कुमार दास	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
15.	सुकुमार चक्रवर्ती	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
16.	अरविन्द साहा	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
17.	एन.वी. गजानन	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
18.	संजय सरदार	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
19.	एम.के. बरुआ	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
20.	वी. अन्नपूर्णा	24.08.2011 (अपराह्न)
21.	वी.पी. शिवदासन	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
22.	रूपा एन. सुतार	24.08.2011 (अपराह्न)
23.	वी. वेंकटा रामी रेड्डी	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
24.	कांचन सान्याल	25.08.2011 (पूर्वाह्न)
25.	एस. आर. राधिका	25.08.2011 (पूर्वाह्न)
26.	एम. वाराप्रसादा राव	24.08.2011 (पूर्वाह्न)
27.	राकेश कुमार साहु	24.08.2011 (पूर्वाह्न)

आर.के. पाण्डे, अवर सचिव

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. ए-18011/13/2010-नमक--राष्ट्रपति, श्री एम.ए. अंसारी, नमक उप आयुक्त (ग्रेड-2, भारतीय नमक सेवा समूह 'क' राजपत्रित) को दिनांक 01 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से छः माह की अवधि अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, अथवा अगले आदेशों तक नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर में 37,400--67,000/- रु. (पे बैंड-4), ग्रेड पे 8,900/- रु. के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नमक आयुक्त (ग्रेड-I, भारतीय नमक सेवा समूह 'क' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस.एन. मिश्रा, अवर सचिव

## भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

सं. ए-19011/223/2011-प्रशासन--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति

के आदेश सं. 13/17/2011-ईओ (एसएम-1), दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री दिलीप राज एस. चौधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 77) को दिनांक 13.10.2011 के पूर्वाह्न से लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में सचिव, लोक उद्यम विभाग के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. पवाडिया, संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2011

सं. ए-11011/6/2007-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/31/2010-सी एस-II(ए) (पार्ट) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों की, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के पद पर, 15,600--39,100 रुपए (पी बी-3) जमा ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ नियुक्ति को समय-समय पर यथासूचित तदर्थ पदोन्नति की शर्तों और निबंधनों के अधधीन या 31.3.2012 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ते हैं :-

क्र. सं.	एस एल वर्ष	नाम	प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्य करने की तिथि
1.	1996	श्री राना दास	23.5.2011
2.	1998	श्री राजेश शर्मा	25.4.2011
3.	2000	श्री महेन्द्र प्रसाद	1.9.2010

जी. एन. सिंह, निदेशक (स्थापना)

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

सं. ए-19018/02/2008-स्था. I--इस विभाग की अधिसूचना सं. ए-12023/01/2007-स्था. दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 के सिलसिले में राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, जल संसाधन मंत्रालय को 30 सितम्बर, 2010 के दोपहर के पहले से वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) के साथ ग्रेड वेतन रुपए 7,600/- में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर संविलिन करते हैं।

श्रीनिवास प्रधान, अवर सचिव

## पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

सं. ए-19011/6/2011-स्था.--राष्ट्रपति, सुश्री किरण धींगरा, भा. प्र.से. (यूटी : 75) को पंचायती राज मंत्रालय में सचिव के पद पर

दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 के पूर्वाह्न से तथा अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

एल हौकिप, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

सं. ए-32014(1)/2011-ई-III--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.8.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II (ए) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा काडर के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को उनके आगे लिखी तारीखों से 9,300--34,800/- रु. ग्रेड वेतन 4,800/- रु. के साथ वेतन बैंड-2 में 30.9.2011 तक तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	कैडर जहां वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्यरत हैं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री/श्रीमति/कुमारी			
1.	ओ. पी. दूबे	शहरी विकास मंत्रालय (के.लो.नि.वि.)	07.09.2011 (पूर्वाह्न)
2.	डी. वी. प्रभाकर	शहरी विकास मंत्रालय	07.09.2011 (पूर्वाह्न)
3.	सी. पी. गौनियाल	शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय)	08.09.2011 (पूर्वाह्न)
4.	मनजीत कौर	गृह मंत्रालय	26.08.2011 (पूर्वाह्न)

संजय गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 17 अक्टूबर 2011

सं. ए-32013/1/2011-ई-III--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) के अनुसरण में राष्ट्रपति, सीएसएसएस कैडर के श्री देवी सिंह पुलस्त को दिनांक 04.10.2011 (पूर्वाह्न) से इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक, अथवा अगले आदेशों तक, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन) में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

संजय गुप्ता, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 2011

सं. 13015/01/2005-एससीडी-IV (खंड-II)--राष्ट्रपति, इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (एनसीएससी) आयोग के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय

में तैनात श्री दिबाकर बासक, उप निदेशक को स्थानापन्न रूप में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निदेशक तथा नियमित आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के पदेन उपायुक्त के रूप में 26.08.2011 से 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड + 7,600/- रुपए ग्रेड पे पर नियुक्त करते हैं।

2. पदोन्नति पर श्री दिबाकर बासक को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में तैनात किया जाता है।

एम. ए. मुरलीधरन, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. 6357/एनआईसी/2011-प्रशा. II--महानिदेशक, रा.सू.वि.केन्द्र ने श्री अखिलेश्वर प्रसाद अग्रवाल (कर्मचारी कोड सं. 6357) का रा.सू. वि.केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-एस.बी. के पद से त्याग-पत्र दिनांक 18.10.2011 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

दिनांक 19 अक्टूबर 2011

सं. 6266/एनआईसी/2011-प्रशा. II--महानिदेशक, रा.सू.वि.केन्द्र ने श्री वैभव सिंगला (कर्मचारी कोड सं. 6266) का रा.सू.वि.केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-एस.बी. के पद से त्याग-पत्र दिनांक 19.10.2011 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. पीएफ/2969/एनआईसी/2011-प्रशा. I--श्री के. एस. रंगनाथन, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड सं. 2969), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा. I)

डाक विभाग

नई दिल्ली-110116, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

सं. 3-1/2011-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006-सीएस-II दिनांक 01 जुलाई, 2011 के अनुसरण में, राष्ट्रपति महोदया, डाक विभाग में सी.एस.एस.एस. के निजी सचिव के रूप में सीएसएस के निजी सहायक श्री वी. के. भाटिया की तदर्थ

नियुक्ति की अवधि को 30.09.2011 तक की अवधि के लिए विस्तार देने की सहमति प्रदान करती हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर होगी तथा यह अधिकारी को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने कोई अधिकार नहीं होगा।

हरीश पोखरियाल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

सं. ई.(ओ.)-III-2009/आरएन/19--श्री डी. के. सैनी, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा का मुंबई रेल विकास निगम में स्थाई समाहन होने के पश्चात् उन्होंने दिनांक 08.09.2011 के अपराह से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 25 अक्टूबर 2011

सं. ई.(जी.पी.)/2008/3/8--राष्ट्रपति, भारतीय रेल के यातायात सेवा के निम्नलिखित ग्रुप-बी अधिकारी की उल्लिखित रेलवे पर 30.12.2010 से भारतीय रेल यातायात सेवा (आई.आर.टी.एस.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2009-10 के लिए पैल

पूर्व रेलवे

श्री सोमनाथ रॉय\*

\*श्री सोमनाथ रॉय 01.07.2011 से ही कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

बी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. ए-32013/2/2011-ई. II--राष्ट्रपति, श्री एस. के. मरवाह, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क), ग्रुप 'क' की नियुक्ति अतिरिक्त महानिदेशक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पद पर वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/- (पूर्वसंशोधित) में दिनांक 11.10.2011 से अगले आदेश तक करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12025/1/2010-ई. I--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 08.07.2010 तथा दिनांक 10.12.2010 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.06.2011 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस. I (यू) के अनुसरण में, इस मंत्रालय में

15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड पे में सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित अवर सचिवों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.05.2012 तक अथवा इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	नाम और सीएसएल संख्या
1.	श्री सुशील कुमार झा (सीएसएल सं. 6347)
2.	श्री रामेन्द्र प्रताप शुक्ल (सीएसएल सं. 6503)
3.	श्री हरि राम मीणा (सीएसएल सं. 6755)
4.	श्री सुरजीत दत्ता (सीएसएल सं. 6812)
5.	श्री रामपाल सिंह (सीएसएल सं. 6831)

2. इस मंत्रालय की दिनांक 08.07.2010 तथा दिनांक 10.12.2010 की समसंख्यक अधिसूचनाओं में यथा-उल्लिखित अवर सचिवों के रूप में उनकी तदर्थ नियुक्ति की अन्य निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

सं. 7/2011(मि. सं. ए-35018/2/2011-प्रशा. एक)--राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 70 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री ए. एस. बक्शी, सदस्य (योजना), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति आधार पर 80,000/- (स्थाई) रु. के वेतन श्रेणी में भारत सरकार में सचिव के पदेन स्तर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि 14.10.2011 से पांच वर्ष के लिये, या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक या अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. ए-32012/03/2011-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, डॉ. आर. बी. रायदास को दिनांक 11/10/2011 (पूर्वाह) से और अगले आदेशों तक कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), मुम्बई में 14,300-400-18,300/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में उप-महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वंदना शर्मा, निदेशक

सं. ए-12025/09/2009-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, श्री साकेत बिहारी मिश्रा को दिनांक 11/04/2011 (पूर्वाह) से और अगले आदेशों तक कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुम्बई में 10,000-325-15,200/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में उप-निदेशक (औद्योगिक स्वच्छता) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वंदना शर्मा, निदेशक



## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 31st October 2011

No. A-22017/1/2009-PME (Vol. II)—The President is pleased to appoint the following Private Secretaries on the personal staff of Prime Minister with effect from the forenoon of 27th October, 2011 :—

Sl. No.	Name	Cadre
	S/Shri	
1.	Manikandan Nair	Ministry of Home Affairs
2.	V. S. Bhandari	Ministry of Home Affairs

2. The appointment of these officers on the personal staff of Prime Minister is co-terminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

R. MYTHILI, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 30th September 2011

No. RS/43(ix)/2005/94-Perl.—Consequent upon completion of his tenure as Director (Security) in the Rajya Sabha Secretariat, Shri Sanjay Singh, IPS (AGMU:90) is relieved from this Secretariat w.e.f. the afternoon of the 30th September, 2011.

D. B. SINGH, Jt. Secy.

The 27th October 2011

No. RS/36(i)/2007/105-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of Dr. Vivek Kumar Agnihotri, as Secretary-General, Rajya Sabha on existing terms and conditions for a further period upto 31st July, 2012.

D. B. SINGH, Addl. Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 27th October 2011

No. 6/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Tanna Jaimin. H
2. Ashok Kumar
3. Pankaj S. Bhavsar
4. Dimple Garg

5. Ajay Kumar Prashar

6. Sreejith K. M.

7. Rajesh Sikhakolli

8. Soniya Nibhani

9. J. M. Halpati

10. Neha Mehra

11. Shweta Aggarwal

12. Adarsh Jain

13. Amit Rawat

14. Vibha Kumari

15. Hitesh Modi

16. Kalpesh Kumar Borsadiya

17. Dr. Arvind Sahay

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SE as Scientists/Engineers-SF in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Jalpa B. Modi
2. Dr. Saroj Maity
3. Dr. V. Sathiya Moorthy
4. Trapti Katiyar
5. Jayesh Thakkar
6. Jignesh H. Shah
7. A. B. Shukla

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Manish Kumar
2. Sanjay Kumar Kasodniya
3. M. P. Detroja

4. Hanuman Prasad Yendluri
5. Rajendra C. Bolkotagi
6. Dr. Praveen Kumar Gupta
7. Jignesh R. Kshatriya
8. Ritesh Agrawal
9. Vimalkumari
10. V. N. Parekh

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SF as Scientists/Engineers-SG in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. Pradeep Kumar
2. Dr. A. Subba Rao
3. Dr. Rashmi Sharma
4. Parul Patel
5. H. P. Bhatt
6. Dr. A. S. Arya
7. Deval C. Mehta
8. R. J. Doshi

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 27th October 2011

No. A-12025/14/2008-Adm.I—The President is pleased to appoint Dr. Girija Prasad Pande, a regular Deputy Manager (Plant), Rajasthan Cooperative Dairy Federation Ltd., Jaipur as Deputy Adviser (Animal Husbandry) in Planning Commission in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- on deputation basis w.e.f. forenoon of 20th October, 2011 and for the period upto 30.09.2014 i.e. upto the date of his superannuation as applicable to Central Government employees or until further orders, whichever is earlier.

S. MUKHERJEE, Dir (Admn.)

#### MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 5th October 2011

No. A-32015/3/2006-Admn.IV(LA) Vol. V—The President is pleased to appoint Shri P. S. Rawat, a regular Steno Grade

'C' in Ministry of Urban Development as Private Secretary on ad hoc basis in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the CSSS Cadre of Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) w.e.f. 26.08.2011 (F/N).

2. In terms of Department of Personnel & Training Order No. 4/2/2011-CS.II(A) dated 12.08.2011, the above said appointment is purely on ad hoc basis for the period upto 30.09.2011 or till the regular Private Secretaries become available, whichever is earlier and will not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PS.

ASHA SOTA, Under Secy.

No. A-32015/3/2006-Admn.IV(LA) Vol. V—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar, a regular Steno Grade 'C' in Ministry of Urban Development as Private Secretary on ad hoc basis in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the CSSS Cadre of Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) w.e.f. 26.08.2011 (F/N).

2. In terms of Department of Personnel & Training Order No. 4/2/2011-CS.II(A) dated 12.08.2011, the above said appointment is purely on ad hoc basis for the period upto 30.09.2011 or till the regular Private Secretaries become available, whichever is earlier and will not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PS.

ASHA SOTA, Under Secy.

New Delhi, the 26th October 2011

No. A-12026/05/2011-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint Shri Abdul Aziz, retired Joint Secretary and Legal Adviser (Grade I of the Cadre of Legal Advisers of Indian Legal Service) in the Department of Legal Affairs as Director of Prosecution in Central Bureau of Investigation for a period of two years w.e.f. 01.08.2011 or until further orders, at the Joint Secretary level in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- on re-employment on contract basis.

M. K. SHARMA, Jt. Secy. & Legal Adviser

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 19th October 2011

No. I-14012/14/2011-IPS.IV—Consequent upon their selection for appointment to Indian Administrative Service on the basis of their qualifying the Civil Services Examination, 2010, the President is pleased to accept the technical resignation of the following IPS Probationers of 63 RR (2010 batch) who were appointed to Indian Police Service on the basis of their qualifying the Civil Services

Examination, 2009, from Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names below :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Technical Resignation from the Indian Police Service
	S/Shri	
1.	Ravi Dhawan, IPS (AGMUT:2010)	25.08.2011 (AN)
2.	Mithilesh Mishra, IPS (BH:2010)	25.08.2011 (AN)
3.	Rahul Kumar, Sinha, IPS (JH:2010)	25.08.2011 (AN)
4.	Manjunath Bhajantri, IPS (KTK:2010)	25.08.2011 (AN)
5.	Chaudhari Abhijeet Vishvanath, IPS (KTK:2010)	25.08.2011 (AN)
6.	Ms. Deepa S. Mudhol, IPS (KTK:2010)	25.08.2011 (AN)
7.	Ms. Ruchika Diwakar, IPS (MP:2010)	25.08.2011 (AN)
8.	Sanjay Meena, IPS (MH:2010)	25.08.2011 (AN)
9.	Pardhi Sourabh Zamsingh, IPS (MH:2010)	25.08.2011 (AN)
10.	Thiyagarajan, S. M., IPS (OR:2010)	25.08.2011 (AN)
11.	Bhure Sarveshwar Narendra, IPS (OR:2010)	25.08.2011 (AN)
12.	Kurma Rao, M., IPS (AM:2010)	26.08.2011 (AN)
13.	Rahul Kumar, IPS (BH:2010)	26.08.2011 (AN)
14.	Lakshmanan, IPS (KTK:2010)	26.08.2011 (AN)
15.	Vishak, G., IPS (TN:2010)	26.08.2011 (AN)
16.	S. Arun Prasad, IPS (WB:2010)	26.08.2011 (AN)
17.	Jeevan Babu, K., IPS (WB:2010)	26.08.2011 (AN)

RAJINDER KUMAR, Sec. Officer (IPS-IV)

The 28th October 2011

No. I-11014/4/2011-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Tamil Nadu and Madhya Pradesh, the competent authority in this Ministry has approved the inter-cadre transfer of Shri Siddharth Bahuguna, IPS (Tamil Nadu : 2010) from Tamil Nadu to the IPS Cadre of Madhya Pradesh on the ground of his marriage with Ms. Tanvi Sundriyal Bahuguna, IAS (Madhya Pradesh : 2010).

RAJINDER KUMAR, Sec. Officer (IPS-IV)

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 27th October 2011

No. 39019/5/2011-Estt.(B)—Consequent upon completion of his term of appointment, Lt. Gen. (Retd.) Nirbhay Sharma has demitted the office of Member, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 10th October, 2011.

RAKESH MOZA, Under Secy.

## MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 3rd October 2011

No. 100 (F. No. A.38013/4/2011-Ad.I)—Shri Somnath Banerjee, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 30th September, 2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 5th October 2011

No. 101 (F. No. A.19013/30/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Kiran Chauhan, Senior Hindi Translator of Central Secretariat Official Language Service as Assistant Director (Official Language) in the Department of Revenue in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- on ad hoc basis w.e.f. 25.08.2011 (FN) and until further orders.

2. The promotion of Ms. Kiran Chauhan, Assistant Director (OL) is purely on ad hoc basis and it does not confer on her any right for fixation of seniority or regular appointment.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 102 (F. No. A.19012/7/2008-Ad.I)—In continuation of this Department's Notification No. 62, dated 19th August, 2008, the President is pleased to appoint Shri K. Ramakrishnan, IRS (C&CE:97), Deputy Secretary as Director in the Department of Revenue w.e.f. 01.07.2011 (FN), for the balance period of his five years tenure i.e. upto 31.07.2013 or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 12th October 2011

No. 103 (F. No. A.19011/15/2010-Ad.I)—Shri K. S. Napoleon, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Joint Secretary (in-situ), Central Economic Intelligence Bureau in the Department of Revenue, retired

from Government Service on 30th September, 2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

### CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

New Delhi, the 29th July 2011

#### INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 22 of 2011 (F. No. A.38012/09/2011-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri M. A. Darudwale, Dy. Commissioner of Central Excise, Mumbai-II from the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) with effect from 01.08.2011 (FN) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

R. SANEHWAL, Dir.

The 30th July 2011

No. 23 of 2011 (F. No. A.38012/14/2011-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri V. S. Gaur, Deputy Commissioner of Central Excise, Jaipur from Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) with effect from 31.07.2011 under Rule 48(1-A) of the CCS (Pension) Rules, 1972.

R. SANEHWAL, Dir.

The 19th August 2011

No. 25 of 2011 (F. No. A.38012/25/2005-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri Daya Shankar (Date of Birth: 21.02.1952) (IRS: C&CE:1978), from the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) with effect from 25.09.2005 (AN) under FR-56(k).

R. SANEHWAL, Dir.

The 23rd August 2011

No. 26/2011 (F. No. A-32012/29/2009-Ad.II)—The President is pleased to promote Shri S. Wadia, the then Assistant Commissioner of Customs in the Junior Time Scale (Retd.) (since expired) to the grade of Assistant Commissioner of Customs & Central Excise (Senior Time Scale) with effect from 17.08.1982, i.e. the date on which his junior Shri B. B. Chitnis was promoted to the said grade.

R. SANEHWAL, Dir.

The 24th August 2011

#### INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 27 of 2011 (F. No. A-38012/15/2011-Ad.II)—The

President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Tarun Kumar Govil, Commissioner of Central Excise (Appeal), Mumbai Zone-I, Mumbai with effect from 25.08.2011 under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972.

R. SANEHWAL, Dir. (Ad.II)

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi-110513, the 14th October 2011

No. A-32013/08/2011/Gr.A/1402-23—The President is pleased to appoint, on probation, the following Sr. Accounts officers (Group 'B') to the Junior Time Scale of ICAS (Group A) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 (pre-revised) (New PB-3 with Grade pay of Rs. 5,400) in terms of Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time, with effect from 14 October, 2011 (FN):—

(S/Shri)

1. A. K. Kalsi
2. M. S. Pratap
3. D. V. Udar
4. A. K. Sehgal
5. Ms. T. R. Padmavathi
6. M. C. Ghonge
7. Ms. Radha Kadwal
8. D. K. Chatterjee
9. K. Elavarasan (SC)
10. Abhe Singh (SC)
11. K. David Raju (SC)
12. Sankar Sardar (SC)
13. Suresh Kumar (SC)
14. Narsingh Lal (SC)
15. Ms. S. Geetha (G. H. Lazarus)
16. Kamaljit Singh (on deputation to CSWB up to 08.06.2012)
17. V. K. Jha
18. Ms. Krishna Dhall
19. K. K. Mittal
20. A. S. Dhawan
21. Hem Chand (SC)
22. Harjit Singh (SC)

2. The period of probation shall be two years from 14 October, 2011.

AMITABH TRIPATHI, Dy. Controller General of  
Accounts

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 21st October 2011

No. A-12011/04/2007-Ad.-II—The President is pleased to appoint, on selection by Direct Recruitment through UPSC, Shri Manoja Kumar Sahu to the Senior Time Scale (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) of Indian Corporate Law Service w.e.f. 02.08.2010 (forenoon).

2. In exercise of the powers conferred by Section 448(1) of the Companies Act, 1956, the Central Government have appointed Shri Manoja Kumar Sahu, a Senior Time Scale officer to officiate as Deputy Official Liquidator in the Office of the Official Liquidator, Chennai w.e.f. 02.08.2010 (forenoon).

R. K. PANDEY, Under Secy.

The 24th October 2011

No. A-32011/08/2010-Ad.-II—The President is pleased to appoint the following Group B officers to Junior Time Scale (Group A) of Indian Corporate Law Service (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) on their promotion with effect from the date mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date of effect
1	2	3
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Anshu Tandon	24.08.2011(F.N.)
2.	Sanjay Kumar Verma	24.08.2011(F.N.)
3.	S. N. Tiwary	25.08.2011(F.N.)
4.	Sham Rao D Patil	25.08.2011(F.N.)
5.	Rajender Kumar	29.08.2011(F.N.)
6.	Aparajit Barua	24.08.2011(F.N.)
7.	Ajay Kumar Meena	29.08.2011(F.N.)
8.	Sudhakar T Bhoys	25.08.2011(F.N.)
9.	Gopal Singh	24.08.2011(F.N.)
10.	Animesh Bose	24.08.2011(F.N.)
11.	Kaberi Sarkar	24.08.2011(F.N.)
12.	S. P. Sawant	25.08.2011(F.N.)
13.	R. K. Gholap	24.08.2011(A.N.)
14.	Chandan Kumar Das	24.08.2011(F.N.)
15.	Sukumar Chakraborty	24.08.2011(F.N.)

1	2	3
16.	Arabinda Saha	24.08.2011(F.N.)
17.	N V. Gajanan	24.08.2011(F.N.)
18.	Sanjay Sardar	24.08.2011(F.N.)
19.	M. K. Barua	24.08.2011(F.N.)
20.	V. Annapurna	24.08.2011(A.N.)
21.	V. P. Sivadasan	24.08.2011(F.N.)
22.	Rupa N. Sutar	24.08.2011(A.N.)
23.	V. Venkata Rami Reddy	24.08.2011(F.N.)
24.	Kanchan Sanyal	25.08.2011(F.N.)
25.	S. R. Radhika	25.08.2011(F.N.)
26.	M. Varaprasada Rao	24.08.2011(F.N.)
27.	Rakesh Kumar Sahu	24.08.2011(F.N.)

R. K. PANDEY, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

##### (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 31st October 2011

No. 18011/13/2010-Salt—The President is pleased to appoint Shri M. A. Ansari, Deputy Salt Commissioner (Grade-II, Group 'A' Gazetted of the Indian Salt Service) as Salt Commissioner, (Grade-I, Group 'A' Gazetted of the Indian Salt Service) in the Office of the Salt Commissioner, Jaipur on purely adhoc basis in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4), with Grade Pay of Rs. 8,900/- with effect from the forenoon of 1st September, 2011 for a period of Six months or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier, or until further orders.

S. N. MISHRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

##### (DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 20th October 2011

No. A-19011/223/2011-Admn.—In pursuance of Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training, Appointment Committee of the Cabinet's Order No. 13/17/2011-EO (SM-I) dated 12 October, 2011, the President is pleased to appoint Shri Dileep Raj S. Chaudhary, IAS (MP : 77) as Secretary, Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises w.e.f. forenoon of 13th October, 2011.

A. K. PAVADIA, Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC  
DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 1st November 2011

No. A-11011/06/2007-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 20/31/2010-CS-II (A) (Pt.) dated 21st October, 2011, the President is pleased to extend the adhoc appointment of the following regular Private Secretaries of CSSS Cadre as Principal Private Secretary of CSSS Cadre in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 6,600/- for the period up to 31.03.2012 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions of adhoc promotion intimated from time to time:—

Sl. No.	SL Year	Name	Date from which officiating as PPS
1.	1996	Shri Rana Das	23.05.2011
2.	1998	Shri Rajesh Sharma	25.04.2011
3.	2000	Shri Mahendra Prasad	01.09.2010

G. N. SINGH, Dir. (Estt.)

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL  
RESEARCH)

New Delhi-110016, the 17th October 2011

No. A-19018/02/2008-Estt.—In continuation of this Department's Notification No. A-12023/01/2007-Estt. dated 3rd October, 2008, the President is pleased to absorb Sh. Narendra Kumar Gupta, Senior Research Officer, Central Soil & Materials Research Station, Ministry of Water Resources in the post of Scientist D in Department of Scientific & Industrial Research in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 30th September, 2010.

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-110016, the 21st October 2011

No. A-19011/06/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Kiran Dhingra, IAS (UT : 75) as Secretary in the Ministry of Panchayati Raj w.e.f. the forenoon of 14 October, 2011 and until further orders.

L. HAOKIP, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 4th October 2011

No. A-32014(1)2011-E-III—In pursuance of the Department of Personnel and Training O.M. No. 4/2/2011-

CS.II(A) dated 12.08.2011, the following regular PAs of CSSS Cadre are appointed as Private Secretaries on ad hoc basis with effect from the date shown against each in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- upto 30.09.2011 :—

Sl. No.	Name	Cadre where working as PAs	Date of appointment as PS in HRD
1.	Sh. O. P. Dubey	M/o Urban Development (CPWD)	07.09.2011 (FN)
2.	Sh. D. V. Prabhakar	M/o Urban Development	07.09.2011 (FN)
3.	Sh. C. P. Gauniyal	M/o Urban Development (Dte. of Estates)	08.09.2011 (FN)
4.	Manjeet Kaur	M/o Home Affairs	26.08.2011 (FN)

SANJAY GUPTA, Under Secy.

The 14th October 2011

No. A.32013/1/2011-E-III—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Sh. Devi Singh Pulast of CSSS, as Principal Private Secretary in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis with effect from 04.10.2011 (FN) till the posts are filled up on regular basis, or until further orders.

SANJAY GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 2nd September 2011

No. 13015/1/2005-SCD-VI (Vol. II)—The President is pleased to appoint Shri Dibakar Basak, Dy. Director presently posted in Lucknow regional Office of National Commissions for SCs (NCSC) to officiate as Director for SCs and STs and ex-officio Dy. Commissioner of SCs and STs on regular basis in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + GP of Rs. 7,600/- with effect from 26.08.2011.

2. On promotion, Shri Dibakar Basak is posted in NCSC.

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 18th October 2011

No. 6357/NIC/2011-Adm.-II—The Director General, NIC

is pleased to accept the resignation of Sh. Akhileshwar Prasad Agrawal, (Emp. Code No. 6357), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre-Headquarters, New Delhi, with effect from the afternoon of 18.10.2011 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

The 19th October 2011

No. 6266/NIC/2011-Adm.II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Vaibhav Singla, (Emp. Code No. 6266), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre-Headquarters, New Delhi, with effect from the afternoon of 19.10.2011 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

New Delhi-110003, the 31st October 2011

No. PF/2969/NIC/2011-Adm.I—Shri K. S. Ranganathan, Scientist "F" (Emp. Code: 2969), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2011 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Adm.-I)

#### DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 7th October 2011

No. 3-1/2011-Admn.—In pursuance of D.O.P. & T's O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 1st July, 2011, the President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of Shri V. K. Bhatia, PA of CSSS as PS of CSSS in the Department of Posts for a period upto 30.09.2011.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer on the officer any right to claim seniority in PS of Central Secretariat Stenographers Service.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

#### MINISTRY OF RAILWAYS

##### (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 20th October 2011

No. E(O)III-2009/RN/19—Consequent upon his permanent absorption in MRVC Shri D. K. Saini, SAG/IRSE, has resigned from Railway Service with effect from 08.09.2011 (AN).

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

The 25th October 2011

No. E(GP)2008/3/8—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officer of Traffic Department

of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS), with effect from 30.12.2010 on the Railway mentioned as under :—

PANEL FOR 2009-10

Eastern Railway

Shri Somnath Roy\*

\*Shri Somnath Roy would, however, be entitled to monetary benefit in Jr. Scale w.e.f. 01.07.2011 only.

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 18th October 2011

No. A-38020/2/2011-Estt.II (V.II)—The President is pleased to appoint Shri S. K. Marwah, Chief Engineer of the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' as Additional Director General (ADG) on regular basis in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- (pre-revised) with effect from 11.10.2011 (A.N.) and until further orders in the Ministry of Road Transport and Highways.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-12025/1/2010-E-I—In continuation of this Ministry's notifications of even number dated 8.7.2010 & 10.12.2010 and in pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010-CS.I (U) dated 15.6.2011, the President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following Under Secretaries of CSS in this Ministry in Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay upto period 31.5.2012 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier :—

Sl.No. Name & CSL No.

1. Shri Sushil Kumar Jha (CSL No. 6347)
2. Shri Ramendra Pratap Shukla (CSL No. 6503)
3. Shri Hari Ram Meena (CSL No. 6755)
4. Shri Surajit Dutta (CSL No. 6812)
5. Shri Rampal Singh (CSL No. 6831)

2. The other terms and conditions of their ad hoc appointment as Under Secretaries as mentioned in this Ministry's notifications of even number dated 8.7.2010 and 10.12.2010 will remain same.

D. R. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 20th October 2011

No. 7/2011 (F. No. A-35018/2/2011-Adm.I)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 70 of the

Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint Shri A. S. Bakshi, Member (Planning), Central Electricity Authority, to the post of Chairperson in the Central Electricity Authority on deputation basis in the scale of pay of Rs. 80,000/- (Fixed) with the ex-officio status of Secretary to the Government of India, for a period of five years with effect from 14.10.2011 or till his superannuation, or until further orders, whichever is the earliest.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

---

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 31st October 2011

No. A-32012/03/2011/ISH-II—The President is pleased to appoint Dr. R. B. Raidas to the post of Deputy Director

General, in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes (DGFASLI), Mumbai in the pre-revised pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 11.10.2011 (F/N) and until further orders.

VANDANA SHARMA, Dir.

No. A-12025/09/2009-ISH-II—The President is pleased to appoint Dr. Saket Bihari Mishra to the post of Deputy Director (Industrial Hygiene) in the pre-revised pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 11.04.2011 (FN) and until further orders.

VANDANA SHARMA, Dir.